



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

26 आश्विन 1939 (श10)  
(सं० पटना 983) पटना, बुधवार, 18 अक्टूबर 2017

---

सं० ए-3-भत्ता-01/2017-8281/वि०  
वित्त विभाग

---

प्रेषक,

राहुल सिंह,  
सचिव(व्यय)।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/  
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक :-18 अक्टूबर 2017

विषय :- पुनरीक्षित वेतन संरचना में भत्तों के पुनरीक्षित दरों के आधार पर वेतनादि के भुगतान हेतु वेतन-पूर्जा निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण दिनांक 01/01/2016 के प्रभाव से वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक 24/05/2017 के द्वारा किया गया है। वित्त विभागीय पत्रांक-3651, दिनांक 25/05/2017 द्वारा औपबधिक रूप से दिनांक 01/01/2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण करने हेतु निर्देश संसूचित किया गया है। पुनः राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के उपरांत वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8043, दिनांक 11/10/2017 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से राज्य कर्मियों को अनुमान्य विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षित दरों की स्वीकृति प्रदान की गई है। वैसे राज्य कर्मियों

जिनका वेतन पूर्जा महालेखाकार अथवा वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है, को पुनरीक्षित दर से भत्तों का भुगतान करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निदेश जारी किया जाता है:-

- (i) वैसे राज्य कर्मी जिन्हें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन पूर्जा निर्गत किया गया है, उन्हें पुनरीक्षित दर से देय भत्तों का भुगतान सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वेतन पूर्जा प्राप्त होने की प्रत्याशा में तत्काल औपबन्धिक रूप से किया जाएगा। भत्तों के पुनरीक्षित दर के आधार पर एक वर्ष के अन्दर वेतन पूर्जा की प्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी। अधिक भुगतान होने की स्थिति में अंतर राशि का सामंजन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मी के वेतन से कर लिया जाएगा।
- (ii) वैसे राज्य कर्मी, जिनके लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पूर्जा निर्गत नहीं किया जा सका है, उन्हें भत्तों के पुनरीक्षित दर के आधार पर वेतन पूर्जा निर्गत होने की प्रत्याशा में तत्काल औपबन्धिक रूप से वेतनादि का भुगतान कर दिया जाएगा। एक वर्ष के अन्दर वेतन पूर्जा निर्गत करा लेना सुनिश्चित किया जाएगा तथा अधिक भुगतान होने की स्थिति में अंतर राशि का सामंजन कर लिया जाएगा।
- (iii) वैसे राज्य कर्मी, जिनका वेतन संबंधित विभाग/कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के स्तर से किया जाता है तथा जिनका पुनरीक्षित वेतन संरचना में सक्षम प्राधिकार द्वारा पुनरीक्षित वेतन निर्धारण कर दिया गया है, उनको पुनरीक्षित वेतन सत्यापन के आधार पर पुनरीक्षित दर से भत्तों का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाय। वैसे कर्मी, जिनका पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण सक्षम प्राधिकार द्वारा अब तक नहीं किया जा सका है तथा उन्हें वित्त विभागीय पत्रांक-3651, दिनांक-25/05/2017 के आलोक में औपबन्धिक रूप से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन भुगतान किया जा रहा है, उन्हें भी पुनरीक्षित दर से भत्तों का भुगतान तत्काल प्रभाव से किया जायेगा तथा सक्षम प्राधिकार से सत्यापन एक वर्ष के अंतर्गत सुनिश्चित करा लें। अधिक भुगतान की स्थिति में अंतर राशि का सामंजन कर लेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राहुल सिंह,  
सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
बिहार गजट (असाधारण) 983-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>